



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2009/पौष 15, 1930

No. 6]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2009/PAUSA 15, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2009

सं. 1/2009-सेवाकर

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2009

No. 1/2009-Service Tax

सा.का.नि. 10(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2008-सेवाकर, तारीख 29 जून, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. सा.का.नि. 482(अ), तारीख 29 जून, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जो ऐसे अधिकांश पूर्व की गई है या करने से लोप किया गया है, वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (ग), (घ), (च), (द), (यक), (यख), (ययच), (ययय), और (यययय), में निर्दिष्ट कराघेय सेवा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी माल परिवहन अभिकरण को उस माल परिवहन अभिकरण द्वारा माल परिवहन सेवा, जो वित्त अधिनियम की धारा 65 के खंड (105) के उप-खंड (ययत) में निर्दिष्ट है, प्रदान करने के लिए कराया गया हो, वित्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सेवाकर से छूट देती है, परंतु सेवा प्रदाता बीजक पर माल परिवहन अभिकरण का नाम और पता और परेषण नोट, जो किसी भी नाम से जानी जाती हो, पर नाम और तारीख दर्शाये, किसके द्वारा प्रदान की गई है।

[फा. सं. 137/175/2008/टीआरयू (सीएक्स-4)]

उन्मेष शरद वाघ, अवर सचिव

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2008-Service Tax, dated the 29th June, 2008, published in the Gazette of India Extraordinary, vide G.S.R. 482 (E), dated the 29th June, 2008, except as things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services specified in sub-clauses (j), (k), (z), (zza), (zzb), (zzzf), (zzzg) and (zzzji) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act, provided by any person to a goods transport agency for use by the said goods transport agency to provide any service, referred to in sub-clause (zzp) of clause (105) of Section 65 of the Finance Act, to a customer in relation to transport of goods by road, from the whole of the Service Tax leviable thereon under Section 66 of the Finance Act subject to the condition that the invoice issued by such service provider, providing services should mention the name and address of the goods transport agency and also the name and date of the consignment note, by whatever name called, issued in his behalf.

[F. No. 137/175/2008/TRU (CX-4)]

UNMESH SHARAD WAGH, Under Secy.